

HARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY,
AJMER

पाठ्यक्रम

SYLLABUS

SCHEME OF EXAMINATION AND
COURSES OF STUDY

FACULTY OF COMMERCE

B.Com Part-II Examination

बी.कॉम. पार्ट - II परीक्षा

(10+2+3 Pattern)

(w.e.f. 2018-19)



ALKA PUBLICATIONS

Purani Mandi, Ajmer

NOTICE

1. Change in Statutes/Ordinances/Rules/Regulations Syllabus and Books may, from time to time, be made by amendment or remaking, and a candidate shall, except in so far as the University determines otherwise comply with any change that applies to years he has not completed at the time of change. **The decision taken by the Academic Council shall be final.**

सूचना

1. समय-समय पर संशोधन या पुनः निर्माण कर परिणियमों/अध्यादेशों/नियमों / विनियमों / पाठ्यक्रमों व पुस्तकों में परिवर्तन किया जा सकता है, तथा किसी भी परिवर्तन को छात्र को मानना होगा बशर्ते कि विश्वविद्यालय ने अन्यथा प्रकार से उनको छूट न दी हो और छात्र ने उस परिवर्तन के पूर्व वर्ष पाठ्यक्रम को पूरा न किया हो। विद्या परिषद द्वारा लिये गये निर्णय अन्तिम होंगे।

CONTENTS

	English	Hindi
Scheme of Examination	4	
Distribution of Marks	5	
Compulsory Subject :		
1. Environmental Studies	7	9
Core Subjects :		
1. Accounting & Finance	11	14
2. Business Management	16	19
3. Banking and Financial Management	21	23
Additional Optional Subject :		
4. Live Stock & Dairying	27	29
5. Textile Dyeing & Printing	31	-
Vocational Subjects :		
9. Computer Applications	35	-

B.Com Part-II Examination**(Under 10+2+3 Pattern)***Scheme of Examination*

The Number of Papers and the maximum marks for each paper together with minimum marks required for a pass are shown against each subjects separately. It will be necessary for a Candidate to pass in the theory part as well as the practical part of the subject of a subject/Paper wherever prescribed separately. Classification of successful candidate shall be as follows:

of the aggregate candidate shall be as follows:

First Division 60% }	(a) Part-I Examination
Second Division 48% }	(b) Part-II Examination
	(c) Part-III Examination taken together

All the rest shall be declared to have passed the examination, if they obtain minimum pass marks each subject viz. 36% no division shall be awarded at the part-I and Part-II examination.

SCHEME AND DISTRIBUTION OF MARKS

S. No.	Name of Subject Paper	No. of Paper	Duration	Max. Marks	Min. Pass Marks
Compulsory Subject :					
1.	Environmental Studies	Theory	3 hrs.	100	36
Core Subjects					
1.	Accounting & Finance	Paper I	3 hrs.	100	72
		Paper II	3 hrs.	100	
2.	Business Management	Paper I	3 hrs.	100	72
		Paper II	3 hrs.	100	
3.	Banking & Financial Management	Paper I	3 hrs.	100	72
		Paper II	3 hrs.	100	
Additional Optional Subjects :					
4.	Live Stock and Dairying	Paper I	3 hrs.	66	48
		Paper II	3 hrs.	66	
		Practical	5 hrs.	68	24
5.	Textile Dyeing & Printing	Paper I	3 hrs.	50	54
		Paper II	3 hrs.	50	
		Paper III	3 hrs.	50	
		Practical	6 hrs.	50	18
Vocational Subjects					
6.	Computer Applications	Paper I	3 hrs	65	46
		Paper II	3 hrs	65	
		Practical	3 hrs	70	25

Note :-

- (i) One of the Additional Subject may be offered in undergraduate Commerce class in addition to combined paper of Hindi/English and all the three Core Subjects of of Commerce Faculty. The mark of the additional optional subject & Combined paper shall not be count towards of Division in B.Com.

- (ii) If the candidate pass in the particular addl. subject a mention of the same shall be mentioned in marks sheet and degree .
- (iii) The candidate have to clear the combined Paper in three chance.
- (iv) Non-appearing or absent in the examination of Combined paper shall be



**CORE MODULE SYLLABUS FOR ENVIRONMENTAL STUDIES
FOR UNDERGRADUATE COURSES OF ALL BRANCHES
OF HIGHER EDUCATION**

Unit 1: The Multidisciplinary nature of environmental studies

Definition, scope and importance

Need for public awareness.

Unit 2: Natural Resources:

Renewable and non-renewable resources:

- Natural resources and associated problems.
 - a) Forest resources: Use and over-exploitation, deforestation, case studies, Timber extraction, mining, dams and their effects on forests and tribal people.
 - b) Water resources: Use and over-utilization of surface and groundwater, floods, drought, conflicts over water, dams-benefits and problems.
 - c) Mineral resources: Use and exploitation, environmental effects of extracting and using mineral resources, case studies.
 - d) Food resources: World food problems, changes caused by agriculture and overgrazing, effects of modern agriculture, fertilizer-pesticide problems, water logging, salinity, case studies.
 - e) Energy resources: Growing energy needs, renewable and nonrenewable energy sources, use of alternate energy sources. Case studies.
 - f) Land resources: Land as a resource, Land degradation, man induced Landslides, soil erosion and desertification.
- Role of an individual in conservation of natural resources.
- Equitable use of resources for sustainable lifestyles.

Unit 3: Ecosystems

- Concept of an ecosystem.
- Structure and function of an ecosystem.
- Producers, consumers and decomposers.
- Energy flow in the ecosystem
- Ecological succession
- Food chains, food webs and ecological pyramids
- Introduction, types, characteristic features, structure and function of the following ecosystem:
 - a. Forest ecosystem
 - b. Grassland ecosystem
 - c. Desert ecosystem
 - d. Aquatic ecosystems (ponds, streams, lakes, rivers, oceans, estuaries)

Unit 4: Biodiversity and its conservation

- Introduction – Definition: genetic, species and ecosystem diversity.
- Biogeographical classification of India
- Value of biodiversity: consumptive use, productive use, social, ethical, aesthetic and option values
- Biodiversity at global, National and local levels.
- India as a mega-diversity nation
- Hot-spots of biodiversity.
- Threats to biodiversity: habitat loss, poaching of wildlife, man-wildlife conflicts

- Endangered and endemic species of India
- Conservation of biodiversity: In-situ and Ex-situ conservation of biodiversity.

Unit 5: Environmental Pollution

Definition

- Causes, effects and control measures of:-
 - a. Air pollution
 - b. Water pollution
 - c. Soil pollution
 - d. Marine pollution
 - e. Noise pollution
 - f. Thermal pollution
 - g. Nuclear hazards
- Solid waste Management: Causes, effects and control measures of urban and industrial wastes.
- Role of an individual in prevention of pollution
- Pollution case studies.
- Disaster management: floods, earthquake, cyclone and landslides.

Unit 6: Social Issues and the Environment

- From Unsustainable to Sustainable development
- Urban problems related to energy
- Water conservation, rain water harvesting, watershed management
- Resettlement and rehabilitation of people; its problems and concerns. Case Studies.
- Environmental ethics: Issues and possible solutions.
- Climate change, global warming, acid rain, ozone layer depletion, nuclear accidents and holocaust: Case studies.
- Wasteland reclamation.
- Consumerism and waste products.
- Environmental Protection Act.
- Air (Prevention and Control of Pollution) Act.
- Water (Prevention and Control of Pollution) Act.
- Wildlife Protection Act.
- Forest Conservation Act.
- Issues involved in enforcement of environmental legislation.
- Public Awareness.

Unit 7: Human Population and the Environment

- Population growth, variation among nations.
- Population explosion- Family Welfare Programme.
- Environment and Human health.
- Human Rights.
- Value Education.
- HIV/AIDS.
- Women and Child Welfare.
- Role of Information Technology in Environment and human health.
- Case Studies.

Unit 8: Field Work

- Visit to a local area to document environmental assets- river / forest / grasslands / hill/ mountain.
- Visit to local polluted site- Urban /Rural / Industrial /Agricultural.
- Study of common plants, insects, birds.
- Study of simple ecosystems- pond, river, hill slope, etc.

स्नातक अनिवार्य विषय : पर्यावरण विज्ञान

इकाई प्रथम

पर्यावरण अध्ययन की बहुआयामी प्रकृति, परिभाषा एवं महत्त्व जन जागृति की आवश्यकता

इकाई द्वितीय : प्राकृतिक संसाधन

नदीनीकरण एवं अनदीनीकरण संसाधन : प्राकृतिक संसाधन एवं उससे संबंधित समस्याएं

1. वन संसाधन : उपयोग एवं अतिशोषण, वनोन्मूलन केस अध्ययन, टिम्बर निष्कर्षण, खनन एवं उनके वनों एवं जनजातियों पर प्रभाव
2. जलसंसाधन : सतही एवं भूजल का उपयोग एवं अतिउपभोग, वाढ़, सूखा, जल विवाद, बांधों की समस्याएं एवं लाभ
3. खनिज संसाधन : उपयोग एवं अतिशोषण, खनिज संसाधन के उपयोग एवं निष्कर्ष के पर्यावरणीय प्रभाव, केस अध्ययन
4. खाद्य संसाधन : विश्व खाद्य समस्याएं कृषि एवं अतिचारण के कारण होने वाले परिवर्तन, आधुनिक कृषि के प्रभाव, उर्वरक एवं पीड़कनाशक जनित समस्याएं, जलमग्नता, लवणीयता, केस अध्ययन।
5. ऊर्जा संसाधन : बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताएं, नदीनीकरण एवं अनदीनीकरण ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग केस अध्ययन।
6. भूसंसाधन : भूमि एक संसाधन, भूअपघटन, मानवजनित भूस्खलन मृदा अपरदन एवं मरुस्थलीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में व्यक्तिक भूमिका सतत जीवनचर्या के लिए संसाधनों का उपयुक्त उपयोग।

इकाई तृतीय : पारिस्थितिकी तंत्र

- पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा
- पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्यप्रणाली
- उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक
- पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह
- पारिस्थितिकी अनुक्रमण
- खाद्य श्रृंखला, खाद्यजाल एवं पारिस्थितिकी स्तूप
- परिचय, प्रकार, विशेषताएं, गुण, संरचना एवं कार्यप्रणाली
- अ) वन पारिस्थितिकी तंत्र
- ब) घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र
- स. मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र
- द. जलीय पारिस्थितिकी तंत्र (तालाव, धारा, झील, नदियां, समुद्र)

इकाई चतुर्थ : जैव विविधता एवं संरक्षण

- परिचय - परिभाषा : जीनीय, प्रजातीय एवं पारिस्थितिकी विविधता
- भारत का जैवभौगोलिक वर्गीकरण
- जैवविविधता का महत्त्व, उपभोगीय उपयोगिता, उत्पादकीय उपयोगिता, सामाजिक, नैतिक सौन्दर्य बोध एवं वैकल्पिक मूल्य
- वैश्विक, राष्ट्रीय एवं स्थानिक स्तर पर जैव-विविधता
- भारत : एक मैगाविविधता राष्ट्र
- जैवविविधता के तत्परथल
- जैवविविधता के खतरे : आवासक्षय, वन्यप्राणियों का शिकार, मानव-वन्यप्राणियों के बीच विरोधाभास
- भारत की विलुप्तप्राय एवं स्थानिक प्रजातियां

- जैव विविधता का संरक्षण . स्व स्थानीय एवं पूर्व स्थानी संरक्षण
इकाई पंचम : पर्यावरणीय प्रदूषण
- परिभाषा, कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण उपाय
 - a) वायु प्रदूषण b) जल प्रदूषण c) मृदा प्रदूषण
 - d) समुद्री प्रदूषण e) ध्वनि प्रदूषण f) तापीय प्रदूषण
 - g) नाभीकीय खतरे
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन : शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट के कारण प्रभाव एवं नियंत्रण उपाय
- प्रदूषण निवारण में व्यक्तिगत भूमिका
- प्रदूषण केस अध्ययन
- आपदा प्रबंधन : बाढ़, भूकम्प, चक्रवात एवं भूस्खलन
इकाई षष्ठम : सामाजिक मुद्दे एवं पर्यावरण
- असतत से सतत विकास
- उर्जा से संबंधित शहरी समस्याएं
- जल संरक्षण, वर्ष जल संचयन, जल प्रवाह प्रबंधन
- लोगों का पुर्नवास एवं पुनः नियोजन
- समस्याएं एवं चिन्ताएं केस अध्ययन
- पर्यावरण नीति, मुद्दे एवं संभव समाधान
- जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापवृद्धि, अम्लवर्षा, ओजोनपरत क्षरण
- परमाणु दुर्घटनाएं एवं पूर्णाहुति, केस अध्ययन
- बंजर भूमि उद्धार
- उपभोक्तावाद . एवं अपशिष्ट उत्पाद
- पर्यावरण निवारण नियम
- वायु निवारण (निवारण एवं नियंत्रण) प्रदूषण नियम
- जल (निवारण एवं नियंत्रण) प्रदूषण नियम
- वन्य जीव संरक्षण नियम
- वन संरक्षण नियम
- पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन में शामिल मृद्दे
- जन जागरूकता
इकाई सप्तम : मानव जनसंख्या एवं पर्यावरण
- जनसंख्या वृद्धि, राष्ट्रों के बीच भिन्नता
- जनसंख्या विस्फोट, परिवार कल्याण योजना
- पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य - मानव अधिकार
- मौलिक शिक्षा
- एच.आई.वी./एड्स
- महिला एवं शिशु कल्याण
- पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका
- केस अध्ययन (घटनात्मक/उदाहरणात्मक अध्ययन)
इकाई अष्टम : स्थानीय क्षेत्रों की यात्रा
- पर्यावरण दम्तावेजों के लिये नदी/वन/घास के मैदान, पहाड़ी, पहाड़
- स्थानीय दूत क्षेत्रों की यात्रा - शहरी/ग्रामीण/औद्योगिक/ कृषि
- स्थानीय पेड़ों, कीड़ों एवं पक्षियों का अध्ययन
- सरल पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन - तालाब, नदी, पहाड़ी तलहटी

B.Com. Part II Examination

1 : ACCOUNTS & FINANCE

Scheme :

Two Papers	Min. Pass Marks 72	Max. Marks 200
Paper I	3 hrs. duration	100 marks
Paper II	3 hrs. duration	100 marks

Paper -I : Corporate Accounting

Scheme

Duration 3 Hrs.	Min. Pass Marks - 36	Max. Marks 100
-----------------	----------------------	----------------

Objective : This course enable the students to develop awareness about corporate accounting in conformity with the provisions of companies Act.

- Note :**
1. To impart basic accounting knowledge as applicable to business.
 2. The paper will have at least 60% weightage (Markswise) on practical problems.
 3. Question Paper will be divided into 3 Parts.

Part A : This part contain 10 Questions from all Three Units of 2 Marks each. All Questions are compulsory. Answer limit maximum 20 Words per Question.

Part B : This part contain 05 Questions from all Three Units of 4 Marks each. All Questions are compulsory. Answer limit maximum 50 Words per Question

Part C : This part will have 03 Questions. Select 01 question from each unit. Question will be of 20 marks each. Answer limit-maximum 400 words per question.

Unit-I

Advance study of Issue, forfeiture and re-issue of shares, redemption of preference shares. Valuation of Goodwill & Shares.

Unit-II

Final accounts, Including computation of managerial remuneration and disposal of profit. Accounting for amalgamation of companies as per Indian Accounting Standard 14.

Unit - III

Liquidation of Companies. Accounting for internal reconstruction including inter-company holding and reconstruction schemes.

Accounts of holding and subsidiary companies in India, Consolidated Balance Sheet and Profit & Loss Account.

Suggested Reading:

1. Gupta R.L., Radhaswamy M.: Company Accounts, Sultan chand and Sons., New Delhi.
2. Maheshwari S.N.: Corporate Accounting, Vikas Publishing House, New Delhi.
3. Monga J.R., Ahuja, Girish and Sahgal Ashok: Financial Accounting, Mayur Paper Backs, Noida.
4. Shukla M.C., Grewal R.S. and Gupta S.C., Advanced Accounts. Sultan Chand & Co., New Delhi
5. Accounting for PE II - PC. Tulsian South, Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio.
6. S.N. Maheshwari, S.K. Maheshwari, Advanced accountancy volume II Vikas Publication House, New Delhi.
7. Jain, Khandelwal & Pareekh, Company Accounts. Ajmera Book Co., Jaipur
8. Agarwal, Shah, Sharma, Agarwal, Agarwal, (Hindi & English) Corporate Accounting. RBD Jaipur

Paper – II : Financial Accounting & Decision Making**Scheme**

Duration 3 Hrs. Min. Pass Marks - 36 Max: Marks 100

Objective : The Course provides the students for understanding of the application of accounting techniques for management.

Note : 1. The paper will have at least 60% weightage (Markwise) on practical problems.

2. Question Paper will be divided into 3 Parts.

Part A : This part contain 10 Questions from all Three Units of 2 Marks

each. All Questions are compulsory. Answer limit maximum 20 Words per Question.

Part B : This part contain 05 Questions from all Three Units of 4 Marks each. All Questions are compulsory. Answer limit maximum 50 Words per Question

Part C : This part will have 03 Questions. Select 01 question from each unit. Question will be of 20 marks each. Answer limit-maximum 400 words per question.

Unit-I

Departmental and Branch accounts (including foreign Branch)

Accounting for Investment & Stock market transactions. Insurance Claims

Unit-II

Marginal costing : Marginal and differential costing as a tool for decision making - make or buy, change of product mix; pricing; break even analysis; exploring new markets; shutdown decisions.

Value added statement, Economic value added, Market value added.

Unit-III

Budgeting for profit planning and control: meaning of budget and budgetary control; objectives; merits and limitations.

Types of budgets; fixed and flexible budget; cash budget; control ratios; Zero Base Budgeting; Responsibility Accounting; Performance Budgeting.

Standard costing and variance analysis; meaning of standard cost and standard costing; advantage and application; variance analysis-material, labour; activity based costing.

Books Recommended :

1. Arora M.N. : Cost Accounting- Principles and Practice, Vikas, New Delhi.
2. Jain S.P. & Narang K,L. : Cost Accounting, Kalyani, New Delhi.
3. Anthony, Robert & Rece. Et.al. : Principles of management Accounting :
4. Howngran, Charies, Foster and Dater et.al. : Cost Accounting - Managerial Emphasis. Prentics hall, New Delhi,
5. वित्तीय लेखांकन व निर्णयन - अग्रवाल, शाह, अग्रवाल, शर्मा, अग्रवाल, रमेश, बुक डिपो जयपुर (हिन्दी व अंग्रेजी)।

6. वित्तीय लेखांकन व निर्णयन – जैन, खण्डेलवाल, पारीक, दवे, अजमेरा बुक डिपो, जयपुर ।
7. अग्रवाल एम.आर. प्रबन्ध लेखांकन, मयूर पेपर वेक्स, जयपुर ।

लेखांकन एवं वित्त

प्रथम प्रश्न पत्र : निगमीय लेखांकन

समयवधि : 3 घण्टे न्यूनतम उत्तीर्णांक : 36 अधिकतम अंक : 100
उद्देश्य : विद्यार्थियों को निगमीय लेखांकन के प्रति कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जागरूकता उत्पन्न करना ।

- नोट : 1. व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले लेखांकन के ज्ञान को देना ।
2. इस प्रश्न पत्र में कम से कम 60 प्रतिशत प्रायोगिक प्रश्न (प्रेक्टिकल प्रोब्लम) पूछे जायेंगे ।
3. प्रश्न पत्र तीन खण्डों में विभाजित होगा ।

भाग 'अ' – इस भाग में सभी तीनों इकाईयों से 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 02 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। उत्तर सीमा 20 शब्द प्रति प्रश्न।

भाग 'ब' – इस भाग में सभी तीनों इकाईयों से 05 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 04 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। उत्तर सीमा 50 शब्द प्रति प्रश्न।

भाग 'स' – प्रत्येक भाग में से एक प्रश्न करते हुए तीन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। उत्तर सीमा अधिकतम 400 शब्द प्रति प्रश्न।

इकाई – 1

कम्पनी के अंशों का निर्गमन तथा उनका हरण और उनका पुनर्निगमन, शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन।

इकाई – 2

कम्पनियों के अंतिम खाते : चिट्ठे के लंबाकार व क्षितिजाकार प्रारूप, लाभ-हानि

खाता (प्रबन्धकों का पारिश्रमिक व लाभों का निपटारा सहित), कम्पनियों का एकीकरण लेखांकन प्रमाण 14 के अनुसार।

इकाई – 3

कम्पनियों का समापन, आंतरिक पुनर्निर्माण के लिये लेखांकन (कम्पनियों द्वारा आपसी, अंश रखना तथा पुनर्निर्माण के योजना सहित)

भारत में सूत्राधारी व सहायक कम्पनियों के लेखे : एकीकृत चिट्ठा एवं लाभ-हानि खाता

द्वितीय प्रश्न पत्र : वित्तीय लेखांकन एवं निर्णयन

समयावधि : 3 घण्टे न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 अधिकतम अंक 100

उद्देश्य : विद्यार्थियों को प्रबन्ध में लेखांकन तकनीकों के उपयोग की प्रविधि को समझाना।

- नोट : 1. इस प्रश्नपत्र में कम से कम 60 प्रतिशत प्रायोगिक प्रश्न (प्रेक्टिकल प्रोब्लम) पूछे जायेंगे ।

2. प्रश्नपत्र तीन खण्डों में विभाजित होगा ।

भाग 'अ' – इस भाग में सभी तीनों इकाईयों से 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 02 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। उत्तर सीमा 20 शब्द प्रति प्रश्न।

भाग 'ब' – इस भाग में सभी तीनों इकाईयों से 05 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 04 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। उत्तर सीमा 50 शब्द प्रति प्रश्न।

भाग 'स' – प्रत्येक भाग में से एक प्रश्न करते हुए तीन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। उत्तर सीमा अधिकतम 400 शब्द प्रति प्रश्न।

इकाई – 1

विभागीय व शाखा लेखे (विदेशी शाखा सहित)।

अंश बाजार व्यवहारों एवं विनियोगों के लेखे, बीमा दावे ।

इकाई - 2

सीमान्त लागत लेखांकन : निर्णयन के उपकरण के रूप में सीमान्त एवं भेदात्मक लागत लेखांकन, बनाए अथवा खरीदें, उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन, मूल्य निर्धारण, सम विच्छेद विश्लेषण, नये बाजारों की खोज, बन्द करने के निर्णय, ।

मूल्य संवर्द्धन विवरण पत्र, आर्थिक मूल्य संवर्द्धन, बाजार मूल्य संवर्द्धन।

इकाई - 3

लाभ नियोजन एवं नियंत्रण हेतु बजटन : बजट एवं बजटरी नियंत्रण का अर्थ, उद्देश्य, गुण एवं दोष एवं सीमाएँ ।

बजट के प्रकार : स्थिर एवं लोचशील बजट, रोकड़ बजट, नियंत्रण अनुपात, शून्य आधारित बजटन, उत्तरदायित्व लेखांकन, निष्पत्ति बजटन ।

प्रमाप लागत लेखांकन एवं विचरण विश्लेषण – प्रमाप लागत एवं प्रमाप लागत लेखांकन का अर्थ, लाभ एवं अनुप्रयोग, विचरण विश्लेषण – सामग्री, श्रम, किया आधारित लागत लेखांकन ।

2. BUSINESS MANAGEMENT

Scheme

Two Papers	Duration	Max. Marks	Min. Pass Marks
Paper - I	3 Hrs.	100	
		200	72
Paper - II	3 Hrs.	100	

Paper I – COMPANY LAW

3Hrs. Duration

Max. Marks : 100

Note : Question Paper will be divided into 3 parts.

Part A : This part contain 10 Questions from all Three Units of 2 Marks each. All Questions are compulsory. Answer limit maximum 20 Words per Question.

Part B : This part contain 05 Questions from all Three Units of 4 Marks each. All Questions are compulsory. Answer limit maximum 50 Words per Question

Part C : This part will have 03 Questions. Select 01 question from each unit. Question will be of 20 marks each. Answer limit-maximum 400 words per question.

UNIT - I

Corporate personality - Kinds of companies. Promotion and incorporation of company.

Memorandum of Association. Articles of Association. Prospectus.

UNIT - II

Shares-Share capital, members; transfer and transmission. Debentures and borrowing powers.

Director, Managing director, whole time director, appointment, rights, Duties, liabilities & remuneration. Company investigation, prevention of oppression and mismanagement.

UNIT - III

Company meetings: kinds; quorum, notice, agenda, motion & resolution, minutes. method of voting. Winding-up: kinds & legal provisions.

Books Recommended:

1. Jain and Sharma - Company Law & sec. Practice (Hindi)
2. अग्रवाल-कोठारी . भारतीय कम्पनी अधिनियम साहित्य भवन, आगरा
3. Mathur, Nolakha - Company Law & sec. Practice(Hindi)
4. Avtar Singh - Secretarial practice.
5. Sherikar - Secretarial practice.
6. उपाध्याय, चतुर्वेदी एवं शर्मा . कम्पनी अधिनियम और सचिवीय पद्धति

Paper II – FUNDAMENTALS OF ENTREPRENEURSHIP

3Hrs. Duration

Max. Mark 100

Note : Question Paper will be divided into 3 parts.

Part A : This part contain 10 Questions from all Three Units of 2 Marks each. All Questions are compulsory. Answer limit maximum 20 Words per Question.

Part B : This part contain 05 Questions from all Three Units of 4 Marks each. All Questions are compulsory. Answer limit maximum 50 Words per Question

Part C : This part will have 03 Questions. Select 01 question from each unit. Question will be of 20 marks each. Answer limit-maximum 400 words

per question.

UNIT - I

Entrepreneurship-Introduction, The entrepreneur, Emergence of entrepreneurial class, Theories of entrepreneurship, Role of socio-economic environment, Qualities of entrepreneur – Leadership, Risk taking, Decision making and business planning.

UNIT - II

Promotion of a Venture, Opportunities analysis, External environments analysis: economic-social, and technological, competitive factors; Legal requirements for establishment of a new unit and raising of funds, Venture capital sources and documentation required.

Entrepreneurial Behavior, Innovation and entrepreneur, Entrepreneurial behaviour and psycho-theories, Social responsibility.

UNIT - III

Entrepreneurial Development Programmes (EDP) : EDP Their role, relevance and achievements; Role of Government organizing EDPs ; Critical evaluation.

Role of Entrepreneur : Role of an entrepreneur in economic growth as innovator, generation of employment, opportunities complimenting and supplementing economic growth bringing about social stability and balanced regional development of Industries, Role in export promotion and import substitution, forex earnings, augmenting and meeting local demand.

Suggested Readings :

1. Tandon B.C. Environment and Entrepreneur : Chugh Publications. Allahabad.
2. Sinar A David : Entrepreneurial Megabooks : John Wiley and Sons. New York.
3. Srivastava S.B : A Practical Guide to Industrial Entrepreneurs : Sultan chand and Sons, New delhi
4. Prasanna Chandra : Project Preparation, appraisal. Implementation : Tata McGraw Hill, New Delhi.
5. Pandey I.M : Venture Capital – The Indian Experience : Prentice Hall of India

6. Holt : Entrepreneurship – New Venture Creation : Prentice Hall of India.

7. व्यावसायिक उद्यमिता – जी. एस. सुधा

2. व्यावसायिक प्रबन्ध

योजना

दो प्रश्न पत्र	अवधि	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक
प्रथम प्रश्न पत्र	3 घण्टे	100	
		200	72
द्वितीय प्रश्न पत्र	3 घण्टे	100	

प्रथम प्रश्न पत्र : कम्पनी अधिनियम

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक 100

नोट : प्रश्न पत्र तीन भागों में विभाजित है—

भाग 'अ' – इस भाग में सभी तीनों इकाईयों से 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 02 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। उत्तर सीमा 20 शब्द प्रति प्रश्न।

भाग 'ब' – इस भाग में सभी तीनों इकाईयों से 05 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 04 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। उत्तर सीमा 50 शब्द प्रति प्रश्न।

भाग 'स' – प्रत्येक भाग में से एक प्रश्न करते हुए तीन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। उत्तर सीमा अधिकतम 400 शब्द प्रति प्रश्न।

इकाई – I

निगमिय व्यक्तित्व – कम्पनियों के प्रकार, कम्पनी का प्रवर्तन एवं समामेलन।

पार्षद सीमा नियम, अन्तर्नियम, प्रविवरण।

इकाई – II

अंश – अंश पूँजी, सदस्य, अंश पूँजी का हस्तान्तरण एवं हस्तांकन, ऋण पत्र एवं ऋण लेने के अधिकार,

निदेशक, प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक – नियुक्ति, अधिकार कर्तव्य, दायित्व एवं पारिश्रमिक कम्पनी अन्वेषण अन्याय एवं कुप्रबन्ध की रोकथाम।

इकाई - III

कम्पनी सभायें - प्रकार, कार्यवाहक संख्या, सूचना, कार्यसूची, सुझाव एवं प्रस्ताव, कार्यवृत्त एवं मतदान की विधियां। कम्पनी समापन- प्रकार एवं वैधानिक प्रावधान।

Books Recommended:

1. Jain and Sharma - Company Law & sec. Practice (Hindi)
2. अग्रवाल-कोठारी - भारतीय कम्पनी अधिनियम साहित्य भवन, आगरा
3. Mathur, Nolakha - Company Law & sec. Practice(Hindi)
4. Avtar Singh - Secretarial practice.
5. Sherikar - Secretarial practice.
6. उपाध्याय, चतुर्वेदी एवं शर्मा - कम्पनी अधिनियम और सचिवीय पद्धति

द्वितीय प्रश्न पत्र : उद्यमिता के मूलाधार

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक 100

नोट : प्रश्न पत्र तीन भागों में विभाजित है-

भाग 'अ' - इस भाग में सभी तीनों इकाईयों से 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 02 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। उत्तर सीमा 20 शब्द प्रति प्रश्न।

भाग 'ब' - इस भाग में सभी तीनों इकाईयों से 05 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 04 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। उत्तर सीमा 50 शब्द प्रति प्रश्न।

भाग 'स' - प्रत्येक भाग में से एक प्रश्न करते हुए तीन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। उत्तर सीमा अधिकतम 400 शब्द प्रति प्रश्न।

इकाई - I

उद्यमिता:परिचय; उद्यमी, उद्यमिता, उद्यमीय वर्ग का उद्गम, उद्यमिता की विचारधाराएँ, सामाजिक-आर्थिक वातावरण की भूमिका, उद्यमी के गुण; नेतृत्व, जोखिम वहनता, निर्णय लेना एवं व्यावसायिक नियोजन।

इकाई - II

उपक्रम का प्रवर्तन : अवसर विश्लेषण, बाह्य वातावरण का विश्लेषण, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी एवं प्रतिस्पर्धात्मक घटक। नवीन इकाई की स्थापना के लिए वैधानिक आवश्यकताएँ एवं कोष निर्माण। उद्यम पूँजी स्रोत एवं दस्तावेजी आवश्यकताएँ।

उद्यमीय व्यवहार, नवप्रवर्तन एवं उद्यमी, उद्यमी व्यवहार एवं मनोवैज्ञानिक, विचारधारायें, सामाजिक उत्तरदायित्व।

इकाई - III

उद्यमीय विकास कार्यक्रम (उ.वि.का.): उ. वि. का. की भूमिका, प्रासंगिकता एवं उपलब्धियाँ। उ. वि. का. आयोजन में शासकीय भूमिका। समालोचनात्मक मूल्यांकन।

उद्यमी की भूमिका - आर्थिक विकास में, नवप्रवर्तक के रूप में, एवं रोजगार के अवसरों के सृजन में उद्यमी की भूमिका, सराहनीय एवं अनुपूरक आर्थिक विकास, सामाजिक स्थायित्व स्थापन एवं उद्योगों का क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, निर्यात संवर्द्धन एवं आयात प्रतिस्थापना में उद्यमी की भूमिका। विदेशी मुद्रा अर्जन, स्थानीय मांग के संवर्द्धन एवं आपूर्ति में उद्यमी की भूमिका।

Suggested Readings :

1. Tandon B.C. Environment and Entrepreneur : Chugh Publications. Allahabad.
2. Sinar A David : Entrepreneurial Megabooks : John Wiley and Sons. New York.
3. Srivastava S.B : A Practical Guide to Industrial Entrepreneurs : Sultan chand and Sons, New delhi
4. Prasanna Chandra : Project Preparation, appraisal. Implementation : Tata McGraw Hill, New Delhi.
5. Pandey I.M : Venture Capital - The Indian Experience : Prentice Hall of India
6. Holt : Entrepreneurship - New Venture Creation : Prentice Hall of India.
7. व्यावसायिक उद्यमिता - जी. एस. सुधा

3. BANKING AND FINANCIAL MANAGEMENT**Scheme :**

	Min. Pass Marks	Max. Marks
Two Papers	72	200
Paper I	3 hrs. Duration	100 Marks
Paper II	3 hrs. Duration	100 Marks

PAPER -I : FINANCIAL MANAGEMENT**3 Hrs. Duration****Max. Marks 100****Note :** Question Paper will be divided into 3 parts**Part A :** This part contain 10 questions from all three units (minimum 3 questions from each unit) of 2 marks each. All question are compulsory. Answer limit maximum 20 words per question.**Part B :** This part contain 05 questions from all three units of 4 marks each (minimum 1 question from each unit). All question are compulsory. Answer limit maximum 50 words per question.**Part C :** This part contain 03 questions from all three units (with internal choice in each question). All question are compulsory. Answer limit maximum 400 words per question.**Unit - I**

Meaning, Scope, Importance and Limitations of Financial Management, Tasks and Responsibilities of a Modern Finance Manager. Finance function – Profit vs Wealth Maximization, investment, financing and Dividend decisions. Techniques of financial analysis- Ratio analysis. Liquidity – Activities and profitability Ratio.

Unit - II

Funds flow analysis; Preparation of statement of changes in working capital and statement of sources and uses of funds. Cash flow analysis, difference between funds and cash flow analysis. Cost of Capital; Significance of Cost of Capital. Calculating of Cost of debts, Share capital and retained earnings. Combined weighted Cost of Capital. operating and financial leverage. Their measures. Effect on profit. combined financial and operating leverage.

Unit - III

Financial planning and forecasting, management of working capital, Management of receivables and inventories. Capital Structure: Theories and determinants, Essentials of optimum capital structure. Dividend policies, Essentials of study dividend policy, Walter and Gordon's Model. Cost volume – Profit analysis.

प्रश्न पत्र प्रथम : वित्तीय प्रबंध**नोट :** प्रश्नपत्र तीन भागों में विभाजित है –

भाग 'अ' – इस भाग में सभी तीनों इकाईयों से 10 प्रश्न होंगे (प्रत्येक इकाई से न्यूनतम तीन प्रश्न)। प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। उत्तर सीमा 20 शब्द प्रति प्रश्न।

भाग 'ब' – इस भाग में सभी तीनों इकाईयों से 05 प्रश्न होंगे (प्रत्येक इकाई से न्यूनतम एक प्रश्न)। प्रत्येक प्रश्न 04 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। उत्तर सीमा 50 शब्द प्रति प्रश्न।

भाग 'स' – इस भाग में सभी तीनों इकाईयों से 03 प्रश्न होंगे (प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन के साथ)। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। उत्तर सीमा 400 शब्द प्रति प्रश्न।

इकाई – I

वित्तीय प्रबंध – अर्थ, क्षेत्र, महत्व एवं सीमायें, आधुनिक वित्त प्रबंध के कार्य एवं उत्तर दायित्व – वित्त कार्य – लाभ बनाम सम्पदा अधिकतम करना, विनियोग, वित्तीय एवं लाभांश निर्णयन। वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें – अनुपात विश्लेषण – तरलता, कार्यकुशलता एवं लाभदायकता अनुपात।

इकाई – II

कोष प्रवाह विश्लेषण, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण एवं कोष के साधन एवं उनके उपयोग का विवरण तैयार करना। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। रोकड़ प्रवाह एवं कोष प्रवाह विश्लेषण में अन्तर। पूंजी की लागत – पूंजी की लागत का महत्व, ऋण पूंजी, अंश पूंजी एवं प्रतिधारित अर्जनों की लागत की गणना। पूंजी की भारित लागत। वित्तीय एवं परिचालन उत्तोलक, इनकी गणना करना, लाभ पर प्रभाव। वित्तीय, परिचालन एवं संयुक्त उत्तोलक।

इकाई – III

वित्तीय नियोजन एवं पूर्वानुमान, कार्यशील पूंजी का प्रबंध, स्कंध एवं प्राप्यों का प्रबंध। पूंजी संरचना – सिद्धान्त एवं निर्धारण, अनुकूलतम पूंजी संरचना निर्धारण के आवश्यक तत्व। लाभांश नीति – सुदृढ़ लाभांश नीति के तत्व। वाल्टर एवं गार्डन मॉडल। लागत मात्रा – लाभ विश्लेषण।

Books Recommended :

1. Dr. D.C. Sharma – Vitiya Prabandh
2. Dr. R.C. Kulshrestha – Nigamon-Ka-Vitiya Prabandh.
3. Prasanna Chandra – Financial Management
4. Pandey I.M. – Financial Management.
5. Khan & Jain – Financial Management
6. Kucchal S.C. – Corporate Financial Management
7. Hunt – Basic Business Finance.
8. Howard & Upton – Introduction to Business Finance
9. Dr. Agarwal MD & Agarwal MC – Vitiya Prabandha Ke Tatv
10. एम. आर. अग्रवाल – वित्तीय प्रबंध, मालिक एण्ड कम्पनी, जयपुर

Paper -II : Banking Law & Practice in India**3 Hrs. Duration****Max. Marks 100****Note :** Question Paper will be divided into 3 parts

Part A : This part contain 10 questions from all three units (minimum 3 questions from each unit) of 2 marks each. All question are compulsory. Answer limit maximum 20 words per question.

Part B : This part contain 05 questions from all three units of 4 marks each (minimum 1 question from each unit). All question are compulsory. Answer limit maximum 50 words per question.

Part C : This part contain 03 questions from all three units (with internal choice in each question). All question are compulsory. Answer limit maximum 400 words per question.

Unit -I

Banking Legislations in India-Reserve Bank of India Act, 1934 Banking (Regulation) Act, 1949. Banking Companies (Acquisition undertaking and transfer.) Act 1970. Definition of the term banker and customer – general and special relationship, termination of relationship, pass book. Types of accounts and their operations – types of customers (Practical problems).

Unit -II

Negotiable Instruments, concepts and elements, types-cheque, bills, promissory notes, crossing endorsement presentation (Elementary Knowl-

edge) paying and collecting rights duties, protection and precautions (Practical Problems), Dishonour, Noting and Protesting of Negotiable Instruments.

Unit -III

Investment and lending of bank funds. Principles of Investment, non-profitable and profitable investment in funds (cash reserve, statutory reserves) Bankers Advance against marketable securities. Meaning characteristics nature personal or Travelers letters of credit Circular letters of credit, Circular notes, Circular cheque, Travellers cheque, Parties to letter of credit. Procedure of opening a letter of credit, advantages of letters of credit precautions in Making payments of letters of credit, fraud and its prevention.

Books Recommended :

1. Davar S.R. – Banking Law & Practice.
2. Tandon M.L. – Banking Law Practice.
3. Varshney, P.N. – Banking Law & Practice.
4. Sharma H.C. – Banking Vidhi Vam Vyavhar.
5. वी. एल. ओझा – भारत में बैंकिंग विधि एवं व्यवहार (आदर्श प्रकाशन, जयपुर)
6. Nigam B.L. – Banking Law & Practice.
7. Shrivastava P.K. – Banking Theory and Practice.
8. माक्षई राम – शिष्ट एवं स्थायी (रमेश बुक डिपो, जयपुर)

प्रश्न पत्र द्वितीय : भारत में बैंकिंग विधि एवं व्यवहार**नोट :** प्रश्नपत्र तीन भागों में विभाजित है –

भाग 'अ' – इस भाग में सभी तीनों इकाईयों से 10 प्रश्न होंगे (प्रत्येक इकाई से न्यूनतम तीन प्रश्न)। प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। उत्तर सीमा 20 शब्द प्रति प्रश्न।

भाग 'ब' – इस भाग में सभी तीनों इकाईयों से 05 प्रश्न होंगे (प्रत्येक इकाई से न्यूनतम एक प्रश्न)। प्रत्येक प्रश्न 04 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। उत्तर सीमा 50 शब्द प्रति प्रश्न।

भाग 'स' – इस भाग में सभी तीनों इकाईयों से 03 प्रश्न होंगे (प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन के साथ)। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। उत्तर सीमा 400 शब्द प्रति प्रश्न।

इकाई - I

भारत में बैंकिंग विधान - भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम 1934, बैंकिंग (नियमन) अधिनियम 1949, बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रम अधिग्रहण, अन्तरण) अधिनियम, 1970। बैंकर एवं ग्राहक की परिभाषा - बैंक एवं ग्राहक के सामान्य और विशिष्ट सम्बन्ध, सम्बन्धों की समाप्ति, पास बुक। बैंक खातों के प्रकार एवं संचालन - ग्राहकों के प्रकार (व्यावहारिक समस्याएँ)।

इकाई - II

विनिमय साध्य विलेख - अवधारणा और लक्षण, प्रकार-चैक, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र, रेखांकन, पृष्ठांकन, प्रस्तुतिकरण (प्राथमिक जानकारी), शोधी बैंकर एवं संग्राहक बैंकर - अधिकार एवं दायित्व तथा सावधानियां (व्यावहारिक समस्याएँ), विनिमय साध्य विलेखों का अनादरण, टिप्पण एवं प्रमाणन।

इकाई - III

बैंक कोषों का विनियोजन एवं ऋण। विनियोजन के सिद्धान्त, कोषों का अलाभदायक एवं लाभदायक विनियोग (नकद कोष, वैधानिक कोष), विपणन योग्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध बैंक अग्रिम। व्यक्तिगत साख-पत्र या यात्री साख पत्र-आशय, विशेषतायें, प्रकृति। गश्ती साख-पत्र, गश्ती नोट्स, गश्ती-चैक, यात्री-चैक, साख पत्र के पक्षकार। साख-पत्र खोलने की विधि, साख-पत्रों से लाभ, साख-पत्रों के भुगतान में सावधानियां, कपट एवं उसकी रोकथाम।

Books Recommended :

1. Davar S.R. - Banking Law & Practice.
2. Tandon M.L. - Banking Law Practice.
3. Varshney, P.N. - Banking Law & Practice.
4. Sharma H.C. - Banking Vidhi Vam Vyavhar.
5. बी. एल. ओझा - भारत में बैंकिंग विधि एवं व्यवहार (आदर्श प्रकाशन, जयपुर)
6. Nigam B.L. - Banking Law & Practice.
7. Shrivastava P.K. - Banking Theory and Practice.
8. माक्षई राम - शिष्ट एवं स्थायी (रमेश बुक डिपो, जयपुर)

ADDITIONAL OPTIONAL SUBJECT :**4. LIVE STOCK AND DAIRYING**

Scheme : Two Paper

Min Pass Marks	Duration	Max Marks	Min. Pass Marks
48	3 hrs.	66 Marks	48
	3 hrs.	66 Marks	
	4 hrs.	68 Marks	24

PAPER - I : MILK AND INDIGENOUS MILK PRODUCTS

3 hrs. Duration

Max. marks : 66

Unit - I

1. Normal constituents of milk, general composition of milk of different livestock.
2. Nature of major milk constituents, physical properties of milk.
3. Factors affecting composition and yield of milk.

Unit - II

4. Coagulation of milk with acid enzymes, heat and alcohol.
5. Colostrum and its chemical physical and nutritional properties.
6. Place of milk in Indian diet.

Unit - III

7. Handling of milk-milking by hand and machine production of clean milk, role of micro-organisms in milk sources of contamination, preservations and storage.
8. Adulteration of Milk and its detection, spoilage of milk.
9. Legal standards
10. Milk products - milk powder, ghee, khoa, dahi, chenna, flavored milk.

PAPER -- II INTRODUCTORY AND INDUSTRIAL DAIRYING

Syllabus : -

3 hrs. Duration

Max. Marks : 66

Unit - I

1. Present position of dairy industry in India, Production of milk and its utilization.
2. Agencies engaged in marketing of milk, transportation of milk.
3. Collection of milk by a dairy plant, Filtration, classification pasteurization, homogenization, cooling, packing and storage.

Unit - II

4. Manufacture of standardized, toned, reconstituted flavoured and sterilized milk.
5. Dairy development plans, operation flood.
6. Use of Refrigeration of dairy industry.
7. Metals commonly used for dairy utensils and equipment.

Unit - III

8. Use of substandard milk.
9. Elementary idea about the manufacture of cream, toned milk, butter, ice cream, cheese and concentrated milk.
10. Kinds of spoilage of milk production and the prevention.

LIVESTOCK AND DAIRYING PRACTICAL

Min. Pass Marks : 24

4 Hrs. Duration

Max. Marks : 66

PRACTICAL-I

1. Sampling of milk for chemical analysis.
2. Determination of specific gravity, fat, total, solids and SNF of milk.
3. Determination of acidity of milk, cream, curd
4. Estimation of protein lactose and chloride in milk.
5. Detection of preservation in milk.
6. Detection of adulterants in milk.

Min. Pass Marks : 24

4 hrs. Duration Max. Marks : 66

PRACTICAL - II

1. Study of cream separator parts and separation of cream.
2. Manufacture of ghee, dahi, khoa, chenna, ice-cream.
3. Analysis of Ghee-Acid value, loading value, butyre-refractometer reading peroxide value, bound in test, kries test.
4. Familiarity with common defects of milk and milk products rancidity fishiness, gassiness, tollowness, visit to chilling plants and dairies.

पशुधन एवं डेयरी व्यवसाय

प्रश्न पत्र 1 - दूध और दूध से बने पदार्थ

समयावधि 3 घंटे

अधिकतम अंक : 66

खण्ड - अ

1. दूध का सामान्य संघटन, विभिन्न पशुओं के दूध का संगठन एवं दूध में पाए जाने वाले मुख्य तत्व ।
2. दूध में पाये जाने वाले मुख्य तत्वों का सामान्य स्वरूप एवं दूध में भौतिक गुण ।
3. दूध के उत्पादन व संघटन को प्रभावित करने वाले कारक ।

खण्ड - ब

4. अम्ल, एन्जाइम, गर्मी और एल्कोहल द्वारा दूध का स्कन्दन ।
5. खीस के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुण एवं पोषक महत्व ।
6. भारतीय भोजन में दूध का महत्व ।

खण्ड - स

7. दूध दोहने की विधियां, (हस्त एवं मशीन विधी) स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, दूध में सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रवेश के स्रोत, दुग्ध में जीवाणुओं के कार्य। दूध को भण्डारीत व परिक्षित करना ।
8. दूध में मिलावट व उसका पता लगाना । दूध का खराब होना होना उसे खराब होने से बचाना ।
9. दूध एवं दुग्ध पदार्थों का वैधानिक मान ।
10. दुग्ध पदार्थ-घी, मावा (खोआ), दही, पनीर ।

प्रश्न पत्र 2 : प्रारम्भिक औद्योगिक व्यवसाय

समय 3 घंटे

अधिकतम अंक : 66

खण्ड - अ

1. भारत में डेयरी उद्योग की वर्तमान स्थिति, दुग्ध का उत्पादन एवं उपभोग ।
2. दूध के परिवर्तन व क्रय विक्रय में संलग्न एजेन्सियां ।
3. एक डेयरी संयंत्र पर दूध का एकत्रीकरण, छानना, वर्गीकरण, पाश्चुरीकरण, समांगीकरण, ठंडा करना, पैकिंग एवं भण्डारण ।

खण्ड - ब

4. मानवीकृत दूध टोण्ड मिल्क, सुगन्धित दूध एवं निर्जिमिकृत दूध तैयार करने की सामान्य विधियां ।
5. डेयरी विकास योजना एवं ऑपरेशन फ्लड ।
6. डेयरी उद्योग में प्रशीतन की कार्य प्रणाली का उपयोग ।
7. डेयरी बर्तनों व यंत्रों के लिए काम आने वाली सामान्य धातुये ।

खण्ड - स

8. निम्न श्रेणी के दूध का उपयोग ।
9. क्रीम, मक्कखन, आइसक्रीम, चीज, एवं संघनित दूध तैयार करने की विधियां ।
10. दुग्ध पदार्थों के खराब के प्रकार और उनके बचाव के तरीके ।

प्रायोगिक कार्य—पशुपालन एवं डेयरी व्यवस्था

समय 4 घण्टे

पूर्णांक : 68

प्रयोगिक कार्य - 1

1. रासायनिक परीक्षण के लिए दूध का नमूना लेना ।
2. दूध में अपेक्षक घनत्व, वसा, कुल ठोस पदार्थ और वसा रहित ठोस पदार्थ ज्ञात करना ।
3. दूध, क्रीम एवं दही में अम्लीयता ज्ञात करना ।
4. दूध, प्रोटीन, दुग्धम व क्लोराईड ज्ञात करना ।
5. दूध में परिरक्षी पदार्थों का पता लगाना ।
6. दूध में मिलावट का पता लगाना ।

समय 4 घंटे

पूर्णांक : 68

प्रयोगिक कार्य - 2

1. क्रीम निकालने वाली मशीन के भागों का अध्ययन व दूध से क्रीम निकालना ।
2. घी, दही, मावा, पनीर व आइसक्रीम तैयार करना ।
3. सुगन्धित दूध तैयार करना ।
4. घी का परीक्षण - अम्लीय मान, आयोडीन मान व्युटारेरिकरेक्टो मीटर रीडिंग पर ऑक्साइडोन, क्रिशियन मान ।
5. दूध का तथा दूध पदार्थों के सामान्य दोषों का पता लगाना जैसे खटवास, मछली जैसी सुगन्ध, गैस बनाना, कड़वापन ।
6. डेयरी संयंत्र व अवशीतन केन्द्रों का भ्रमण ।

5. TEXTILE DYEING AND PRINTING**B.Sc./B.A./B.Com PART SECOND (REVISED AND REFRAMED SYLLABUS)**

SCHEME	DURATION	MAX. MARKS	MIN. PASS	MAX. MARKS	MIN. PASS
				FOR B.Sc.	FOR B.A./B.Com
THREE PAPERS	3 HRS.	150	54	150	54
PAPER I	3 HRS.	50	18	50	18
PAPER II	3 HRS.	50	18	50	18
PAPER III	3 HRS.	50	18	50	18
PRACTICAL	5 HRS.	75	27	50	18

PAPER - I**PRINCIPLES OF COLOURATION**

DURATION 3 HRS.

MAXIMUM MARKS 50

NOTE :- The paper is divided into five independent units. Two questions will be set from each unit. The candidate is required to attempt one question from each unit.

UNIT – I

1. Indian traditional dyed textiles
 - a. Bandhani b. Patola c. Ikat
2. Indian traditional printed textiles
 - a. kalamkari b. Sangneri c. Badmeri

UNIT – II

1. Perception of colour
 - a. Mechanism of colour vision b. Theories of colour vision
 - c. Relation between colour & chemical composition of a compound
 - d. Electronic interpretation of phenomenon of colour of a compound

UNIT – III

1. General Properties of Dyes
 - a. Solubility of dyes b. Tinctorial value of dyes
 - c. Fastness properties of dye d. Substantivity of dyes

UNIT – IV

1. Elementary theories of dyeing
 - a. modern concept of dyeing - dye up take, concept of adsorption, diffusion, Dye affinity for fibre, Dye fibre bond
 - b. effect of electrolyte c. effect of temperature
 - d. effect of concentration e. effect of M:L Ratio

UNIT – V

1. Dyes
 - a. Natural b. Synthetic c. Ecofriendly dyes
2. Classification of dyes
 - a. based on application
 - b. based on chemical structure
3. Chemistry and application of dyeing assistance
 - a. dispersing b. leveling agent
 - c. solubilising agent d. dye fixing agent

PAPER – II : TECHNOLOGY OF DYEING

DURATION 3 HRS.

MAXIMUM MARKS 50

NOTE :- The paper is divided into five independent units. Two questions will be set from each unit. The candidate is required to attempt one question from each unit.

UNIT – I

1. General aspects of dyeing
 - a. M:L ratio b. Percent shade c. Percent exhaustion
 - d. Standing bath e. Cross dyeing/Solid Dyeing
 - f. Reverse dyeing g. Topping h. Tailing Effect
 - i. Stripping j. Colour fastness

UNIT – II

1. Dyeing machineries
 - a. Machinery for fibre dyeing – loose stock
 - b. Machinery for Yarn dyeing – Hank, package
 - c. Machinery for fabric dyeing – Zigger, Winch, Padding Mangle, Jet Dyeing Machine, H.T. H.P. Dyeing Machine

UNIT – III

1. Dyeing of cotton and viscose rayon with following dyes
 - a. Direct dyes b. Azoic dyes c. Vat dyes
 - d. Reactive dyes e. Sulphur dyes f. Pigment Colours

UNIT – IV

1. Dyeing of silk and wool with following dyes -
 - a. Acid dyes b. Basic dyes c. Mordant/Chrome dyes

UNIT – V

1. Dyeing of polyester and polyester blended fabric
 - a. Carrier dyeing b. HT HP dyeing
 - c. Jet dyeing d. Thermosol dyeing
2. Dyeing of nylon and acrylic fibre

PAPER – III
TECHNOLOGY OF PRINTING

DURATION 3 HRS.

MAXIMUM MARKS 50

NOTE :- The paper is divided into five independent units. Two questions will be set from each unit. The candidate is required to attempt one question from each unit.

UNIT – I

1. Printing & its significance
2. Methods and machines of printing
 - a. Block
 - b. Screen – Hand & Flat Bed
 - c. Roller
 - d. Rotary

UNIT – II

1. a. Preparation of Printing paste
 - b. Use of various ingredients & thickeners
2. After treatment of Printed goods
 - a. Ageing
 - b. Flash ageing
 - c. Curing
 - d. Carbonisation
 - e. Washing & Soaping
 - f. Reduction clear treatment
 - g. Drying

UNIT – III

1. A Style of Printing
 - a. direct style
 - b. discharge style
 - c. Resist style (dabu, batik, tie & dye)

UNIT – IV

1. Printing of cotton & viscose rayon with following dyeing with
 - a. Azoic dyes
 - b. Rapidogens
 - c. Reactive dyes
 - d. Pigment dyes

UNIT – V

1. Printing wool & silk with
 - a. acid dye
 - b. metal complex dyes

2. Printing of polyester with
 - a. disperse dye
3. Printing of Nylon with s
 - a. Acid dye
4. Printing of acrylic with
 - a. Cationic dyes

6. VOCATIONAL COMPUTER APPLICATIONS

Paper Name (Theory)	Lec.	Exam Hours	Marks of B.A./B.Com	
VCA-03 Database Management System	3	3	65	23
VCA-04 C Programming	3	3	65	23
Paper Name (Practicals)				
VCA-LAB-03 Database Management System	3	3	70	25
VCA-LAB-04 C Programming	3			

Note:

The question paper for Vocational Computer Applications (B.A./B.Com) will be divided into 3 parts

Part A:

1. 10 Question of 1 mark each – 10 marks
2. Answer should not exceed more than 20 words
3. All questions are compulsory

Part B:

1. 5 Questions of 2 marks each – 10 marks
2. Answer should not exceed more than 50 words
3. All questions are compulsory

Part C:

1. 3 Questions of 15 marks each – 45 marks. There will be an internal choice in each question.
2. Answer should not exceed 400 words
3. All questions are compulsory.

Practical exam to be conducted by one internal and one external examiner.
Duration of Practical exam is 3 hours.

36 / Syllabus/B.Com. Part -II

Duration: 3 hours

Max marks: B.A./B.Com – 65

VCA-03 Database Management Systems

Object of database systems, data abstraction, data definition language, data manipulation language, database manager, database administrator. Trade offs between utilities of data and control of data.

Create a Table in MS Access -Data Types, Field Properties, Fields names, types, properties, default values, format, caption, validation rules Data Entry Add record delete record and edit text Sort, find/replace, filter / select, rearrange columns, freeze columns. Edit a Tables- copy, delete, import, modify table structure find replace.

Setting up Relationships- Define relationships, add a relationship, set a rule for Referential Integrity, change the join type, delete a relationship, save relationship Queries & Filter –difference between queries and filter, filter using multiple fields AND, OR, advance filter Queries create Query with one table, find record with select query, find duplicate record with query, find unmatched record with query, run query, save and change query.

Introduction to Forms Types of Basic Forms: Columnar, Tabular, Datasheet, Main/Subforms, add headers and footers, add fields to form, add text to form use label option button, check box, combo box, list box Forms Wizard, Create Template.

Introduction to Reports, Types of Basic Reports: Single Column, Tabular Report Groups/Total, single table report multi table report preview report print report, Creating Reports and Labels, Wizard

Duration: 3 hours

Max marks: B.A./B.Com – 65

VCA-04 C Programming

Top down design algorithm, characteristic of algorithm, implementation of algorithm, efficiency of algorithm, analysis of algorithm, flow chart symbol, benefit and limitations, decision table, pseudo code,

C Language: Types, Operators and Expressions, variable names, data types and sizes, constants, declarations, operator, expressions and type conversions. Control flow: Statements and blocks, selection and loops structures, break, continue, branching and labels.

Functions and program structure: Basics, functions and their arguments, external variables and static variables, scope rules, register variables, block structures, initialization, recursion.

Pointers and Arrays: Pointers and addresses, pointers and function arguments, pointers and arrays, address arithmetic, character pointers and functions, multi-dimensional arrays, pointers arrays, pointer to functions, file handling.